

# मेरीडियन हेल्थ द्वारा प्रस्तुत वित्तीय सहायता कार्यक्रम

## वित्तीय सलाहकार:

मेरीडियन हेल्थ वित्तीय सलाहकार वित्तीय सहायता प्रोग्रामों, आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए उपलब्ध हैं और आवेदन पूरा करने में मदद कर सकते हैं। मेरीडियन हेल्थ वित्तीय सलाहकार इन जगहों पर स्थित हैं:

Jersey Shore University Medical Center, Neptune  
Ocean Medical Center, Brick  
Riverview Medical Center, Red Bank  
Southern Ocean Medical Center, Manahawkin  
Bayshore Community Hospital, Holmdel  
Meridian Family Health Center, Neptune  
Jane H Booker Family Health Center, Neptune  
Booker Behavioral Health Center, Shrewsbury  
Parkway 100 Behavioral Health Center, Neptune  
Raritan Bay Medical Center, Perth Amboy

वित्तीय सहायता सलाहकार साक्षात्कार लेने और जवाब देने के लिए इन जगहों पर आन साइट उपलब्ध हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आवेदक 212 732 - 6505 पर कॉल करें।

## अपने वित्तीय सहायता अपॉइंटमेंट पर आप अपने साथ क्या लाएं :

वित्तीय सहायता आवेदकों को पहचान प्रमाण ,NJ निवास का प्रमाण ,आय का प्रमाण ,और बैंक स्टेटमेंट देने होंगे।

## आवेदन के परिणाम की सूचना:

सभी आवेदकों को 10 व्यावसायिक दिनों के भीतर लिखित नोटिस मिलेगा जिस में निर्णय के स्पष्टीकरण के साथ बताया जाएगा कि आवेदन मंजूर हुआ है या नहीं।

मेरीडियन हेल्थ अबीमाकृत रोगियों के लिए वित्तीय सहायता प्रोग्राम प्रदान करता है। अबीमाकृत रोगी वह व्यक्ति है जिस के पास सरकारी कार्यक्रम समेत, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

## वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त करें:

**परिदृश्य1 :** आपके पास कोई बीमा नहीं है।

- आप खुले नामांकन के दौरान [www.healthcare.gov](http://www.healthcare.gov) पर जा कर स्वास्थ्य बीमा एक्सचेंज के माध्यम से बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आप NJ राज्य के मेडिकेड कार्यक्रम के पात्र हो सकते हैं यदि आपकी वार्षिक घरेलू आय 138 % संघीय गरीबी स्तर) FPL (की तुलना में बराबर या उस से कम है। यदि अस्पताल अनुरोध करें ,तो आप को मेडिकेड के लिए आवेदन करना चाहिए ,पूरी तरह से आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए ,और अपने मेडिकेड बीमा को हर साल रिन्यू करना चाहिए।

**परिदृश्य2 :** आप ने मेडिकेड के लिए आवेदन किया था लेकिन राज्य द्वारा आवेदन नामंजूर कर दिया गया या स्वास्थ्य बीमा एक्सचेंज बंद था।

- आप NJ हॉस्पिटल केयर पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के पात्र हो सकते हैं जो अस्पताल के खर्च और कुछ विशेष डॉक्टरों के पास जाने की फीस कवर करेगा। इस कार्यक्रम में चुने जाने के लिए ,आप को चैरिटी केयर एप्लीकेशन द्वारा आवेदन देना होगा और आवेदन प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करना होगा। आप को अमाउंटस जनरली बिल्ड से अधिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

**परिदृश्य3 :** आप मेडिकेड या NJ हॉस्पिटल केयर पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के पात्र नहीं हैं।

- यदि आप NJ के राज्य मेडिकेड या NJ हॉस्पिटल केयर पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के पात्र नहीं हैं ,तो आप को अबीमाकृत मूल्य रियायती दरों पर दिया जाएगा। आप को आपातकालीन सेवाओं या अन्य ज़रूरी मेडिकल सेवाओं के लिए अमाउन्टस जनरली बिल्ड से अधिक पैसा नहीं देना पड़ेगा और अग्रिम भुगतान की आवश्यकता कभी नहीं होगी या आपातकालीन सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अन्य भुगतान की व्यवस्था नहीं करनी होगी। गैर आपातकालीन सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आप को कुछ पैसा पहले से जमा करना होगा।

मेरीडियन स्वास्थ्य वित्तीय सहायता नीति और आवेदन पत्र की एक फ्री कॉपी [Meridianhealth.com](http://Meridianhealth.com) के " क्या आप को वित्तीय सहायता चाहिए?" पेज के "आपका बिल" में उपलब्ध है। हर मेरीडियन हेल्थ हॉस्पिटल में फ्री कापियां उपलब्ध है या 732 .902. 7080 पर फोन कर के कॉपी मांगी जा सकती हैं।